

## इस अंक में

सांप्रदायिक घटनाएं	2-4	सांप्रदायिक रणनीति	5-7
<b>सांप्रदायिक हिंसा और तनाव</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>राउरकेला में सोशल साइट से फैला तनाव</li> <li>महिला के साथ उत्पीड़न के बाद सांप्रदायिक तनाव</li> <li>प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद तनाव</li> <li>फगवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव</li> <li>भोजपुर में सांप्रदायिक तनाव</li> <li>दक्षिणी दिल्ली में सांप्रदायिक विवाद</li> <li>मुजफ्फरनगर में हत्या के बाद तनाव</li> <li>सहारनपुर में तनाव</li> <li>बाड़मेर में सोशल पोस्ट से तनाव</li> <li>ईद पर अघोषित बंद से तनाव</li> <li>मंदसौर में गौमांस के आरोप में दो महिलाओं की पिटाई</li> <li>गुजरात के आणंद में सांप्रदायिक दंगा</li> <li>राजस्थान में लड़की गायब होने से तनाव</li> <li>कर्नाटक के कलबुर्गी में विवाद</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>पश्चिम बंगाल में वनवासी कल्याण केन्द्र का प्रसार</li> <li>भुवनेश्वर में विहिप का बंद आयोजित</li> <li>कर्नाटक में दलित परिवार पर हमला</li> <li>गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई</li> <li>धर्मांतरण के आरोप में पादरी की पिटाई</li> <li>हैदराबाद विश्वविद्यालय को लेकर विहिप का चलो हैदराबाद</li> <li>हिंदू सोसायटी में घर खरीदने पर विहिप का प्रदर्शन</li> <li>मध्यप्रदेश में दक्षिणपंथी संगठन ने लड़कियों के साथ अभद्रता की</li> <li>आरएसएस के संगठन पर आदिवासी लड़कियों की तस्करी का आरोप</li> <li>कथित पलायन को लेकर विहिप का सर्वे</li> <li>हिंदुत्वादी संगठनों का न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन</li> </ul>	
<b>अतिवादी कथन</b>	<b>8</b>	<b>शिक्षा का भगवाकरण</b>	<b>7-8</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>सम्राट अशोक को बताया राष्ट्र द्रोही</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरएसएस की दखल</li> <li>हिंदू जनजागृति समिति का शिवाजी का चित्र को आपत्तिजनक बताया</li> <li>हरियाणा के पब्लिक स्कूल पर पंचायत का फरमान</li> <li>स्कूलों में संस्कार सिखाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक</li> <li>सरस्वती नदी पर सेमिनार</li> </ul>	
<b>सांप्रदायिक कथन</b>	<b>8-9</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>तेलंगाना के भाजपा विधायक ने दलितों की पिटाई का समर्थन किया</li> <li>महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की इस्लाम पर विवादित टिप्पणी</li> </ul>			
<b>न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया</b>			<b>9-10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>कासरगोड दंगे में केरल हाइकोर्ट का निर्णय</li> <li>साबरमती एक्सप्रेस मामले के मुख्य आरोपी से पूछताछ केन्द्र सरकार: असम में प्रतिबंधित टीवी चैनलों का प्रसारण न हो</li> <li>उत्तरी दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव के आरोप में दो गिरफ्तार</li> <li>अमरोहा दंगे में 6 लोगों को जमानत</li> <li>हेट स्पीच मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी को नोटिस</li> <li>वीरमगाम सांप्रदायिक कांड में पांच को उम्र कैद</li> <li>विहिप नेता प्रवीण खांडया पर जांच में नए तथ्य</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>मेहसाणा दंगे में 11 दोषी सिद्ध</li> </ul>	
		<b>किताब</b>	<b>11</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>हाशिमपुरा दंगा: पुलिस और गैरपुलिस अधिकारियों की थी साजिश</li> </ul>	
		<b>सांप्रदायिकता के आंकड़े</b>	<b>11</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>गृहराज्य मंत्री ने दिए संसद में सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़े</li> </ul>	

सांप्रदायिक घटनाएं		
सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव		
घटनाएं	सम्मिलित संगठन/समूह	दिनांक और घटना स्थल
<p><b>राउरकेला में सोशल साइट से फैला तनाव</b></p> <p>राउरकेला में व्हाट्स एप पर जारी एक संदेश को लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने विरोध किया। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगाया। इस मामले में पुलिस ने हिंदू सेना के एक कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया। विहिप ,बजरंग दल और हिंदू सेना ने गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में वाहनों में लगा दिया।</p> <p><a href="http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Communal-tension-spreads-in-Steel-City-clash-averted/15/07/2016article.3530130ece">http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Communal-tension-spreads-in-Steel-City-clash-averted/15/07/2016article.3530130ece</a> Date Accessed:18/7/2016</p>	हिंदू सेना	14/7/2016 राउरकेला उड़ीसा
<p><b>महिला के साथ उत्पीड़न के बाद सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>अलीगढ़ के बाबरी मंडी में हिंदू महिला से आपराधिक तत्वों द्वारा की गयी अभद्रता के बाद माहौल तनाव पूर्ण है। इस घटना के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। इस मामले में आरोप है कि राजनीतिक दलों के शामिल होने से तनाव बढ़ रहा है। बताया जाता है कि घटना के बाद कुछ हिंदू परिवारों ने अपना घर बेचने की इच्छा जतायी है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/in-aligarh-hindu-families-pack-their-bags-police-ask-them-to-reconsider-/2932258">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/in-aligarh-hindu-families-pack-their-bags-police-ask-them-to-reconsider-/2932258</a> Date Accessed:2016/7/24</p>	अराजक तत्व , भाजपा ,हिंदू महासभा	23/7/2016 बाबरी मंडी , अलीगढ़ , उत्तरप्रदेश
<p><b>प्रेम प्रसंग में हत्या के बाद तनाव</b></p> <p>आंध्रप्रदेश के गुंटूर जिले में एक प्रेम प्रसंग में लड़की की आत्महत्या के बाद सांप्रदायिक तनाव है। आरोप है कि लड़की के परिवार के लोगों ने लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गयी। इस दौरान हुए तनाव में पत्थरबाजी हुई। इस मामले में प्रशासन ने गांव वालों पर हत्या का मामला दर्ज किया है। लड़के पर बलात्कार के बाद हत्या के आरोपों को पुलिस ने अपनी आरंभिक जांच में नकारा है।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-tension-in-guntur-over-muslim-girls-suicide-2922147/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/communal-tension-in-guntur-over-muslim-girls-suicide-2922147/</a> Date Accessed:19/7/2016</p>	स्थानीय समुदाय	गुंटूर ,आंध्रप्रदेश
<p><b>फगवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>कस्बे में शिवसैनिकों और मुस्लिमों-सिखों के बीच हुई झड़प में 6 लोग घायल हो गए। शिवसैनिक अमरनाथ यात्रा रोके जाने के विरोध में मुस्लिम विक्रेताओं की दुकानें बंद करा रहे थे। शिवसैनिकों ने शुक्रवार की नमाज के दौरान स्थानीय मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। घटना का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रशासन को मेमोरेण्डम सौंपा गया।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/punjab/phagwara-tense-after-clash-between-two-communities/story-30Dx1VUzoAYh9HkZjLYrCN.html">http://www.hindustantimes.com/punjab/phagwara-tense-after-clash-between-two-communities/story-30Dx1VUzoAYh9HkZjLYrCN.html</a> Date Accessed: 23/7/2016</p>	शिवसैनिक और स्थानीय समुदाय	22/7/2016 फगवाड़ा ,पंजाब

<p><b>भोजपुर में सांप्रदायिक तनाव</b></p> <p>भोजपुर के गांव रानीसागर में पैगंबर मुहम्मद से जुड़े आपत्तिजनक पोस्ट व्हाट्सएप के जरिए फैलने पर तनाव हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में दुकानों और पोस्टआफिस में आग लगा दिया गया। आमतौर पर इस इलाके में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास नहीं रहा है। इस घटना में 50 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया गया।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/400-cops-deployed-amid-fears-of-bhojpur-communal-tension-2904286/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/400-cops-deployed-amid-fears-of-bhojpur-communal-tension-2904286/</a> Date Accessed: 10/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>8/7/2016 रानीसागर , भोजपुर ,बिहार</p>
<p><b>दक्षिणी दिल्ली में सांप्रदायिक विवाद</b></p> <p>दक्षिणी दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में सामान्य विवाद में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। हिंसा के दौरान पत्थर ,कांच की बोटलें फेंकी गयीं ,जिससे 12 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस ने इस घटना में 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/group-clash-in-south-delhi-cops-among-injured-2890055/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/group-clash-in-south-delhi-cops-among-injured-2890055/</a> Date Accessed: 2/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>1/7/2016 फतेहपुर बेरी , दक्षिणी दिल्ली</p>
<p><b>मुजफ्फरनगर में हत्या के बाद तनाव</b></p> <p>मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में प्रेम प्रसंग में मुस्लिम युवक की हत्या के बाद तनाव हुआ। 16 साल के इरशाद 18 जुलाई से लापता था। पुलिस ने लड़की के परिवार के लोगों पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। कावल में 2013 के दौरान युवकों की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा हुई थी।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/muslim-teen-killed-over-affair-body-found-in-mill-of-girls-kin-2928693/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/muslim-teen-killed-over-affair-body-found-in-mill-of-girls-kin-2928693/</a> Date Accessed: 2/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>कवाल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश</p>
<p><b>सहारनपुर में तनाव</b></p> <p>सहारनपुर के देवबंद में एक मंदिर में तोड़-फोड़ के बाद तनाव हुआ। हिंदुत्वादी संगठन ,भाजपा के साथ स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में मानसिक तौर पर विकसित 21 साल के युवक सादिक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इसी रात प्रतिक्रिया में एक मस्जिद पर हमला किया गया और एक दुकान में आग लगा दिया गया।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/tension-at-deoband-after-temple-idols-found-vandalised-2941524/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/tension-at-deoband-after-temple-idols-found-vandalised-2941524/</a> <a href="http://www.thequint.com/india/29/07/2016tension-in-deoband-after-temple-vandalised-and-mosque-attacked">http://www.thequint.com/india/29/07/2016tension-in-deoband-after-temple-vandalised-and-mosque-attacked</a> Date Accessed: 29/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय, भाजपा , हिंदुत्ववादी संगठन</p>	<p>29/7/2016 देवबंद , सहारनपुर , उत्तरप्रदेश</p>
<p><b>बाड़मेर में सोशल पोस्ट से तनाव</b></p> <p>बाड़मेर में पैगंबर मुहम्मद पर और हिंदू देवी ,देवताओं को लेकर की गयी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तनाव हुआ। पुलिस ने इस मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Barmer-tense-again-after-mans-social-media-post-on-Hindu-gods/articleshow/53147902.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Barmer-tense-again-after-mans-social-media-post-on-Hindu-gods/articleshow/53147902.cms</a> Date Accessed: 11/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>8-9/7/2016 बाड़मेर , राजस्थान</p>

<p><b>ईद पर अघोषित बंद से तनाव</b></p> <p>मध्यप्रदेश के नीमच ,मंदसौर के कई इलाके ईद के दौरान तनावग्रस्त रहे। खबरों में कहा गया है कि हिंदुत्ववादी संगठनों अघोषित बंद आयोजित किया। आरोप है कि हिंदुत्ववादी संगठन ईद से पहले लोगों को कथित तौर पर एक मौलाना द्वारा दिए गए बयान का विरोध करने के लिए उकसा रहा था। विहिप ने इसे धार्मिक यात्रा पर किए गए हमले और लड़कियों के उत्पीड़न की प्रतिक्रिया बताया।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/mp-towns-shut-on-eid-hindu-groups-blamed-for-forced-bandh/story-e2j56tShHUFszUIIRtlkNJ.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/mp-towns-shut-on-eid-hindu-groups-blamed-for-forced-bandh/story-e2j56tShHUFszUIIRtlkNJ.html</a> Date Accessed: 8/7/2016</p>	<p>हिंदुत्ववादी संगठन</p>	<p>7/7/2016 नीमच ,मंदसौर, मध्यप्रदेश</p>
<p><b>मंदसौर में गौमांस के आरोप में दो महिलाओं की पिटाई</b></p> <p>मध्यप्रदेश के मंदसौर में दो मुस्लिम महिलाओं को गौमांस ले जाने का आरोप लगाकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। महिलाओं पर हमला करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि मांस गाय का नहीं था।</p> <p><a href="http://www.business-standard.com/article/pti-stories/two-women-assaulted-in-cow-vigilantism-in-mp-opp-attacks-bjp-116072700581_1.html">http://www.business-standard.com/article/pti-stories/two-women-assaulted-in-cow-vigilantism-in-mp-opp-attacks-bjp-116072700581_1.html</a> <a href="http://www.bbc.com/hindi/india/2016/07/160728_mp_muslim_women_beef_ia">http://www.bbc.com/hindi/india/2016/07/160728_mp_muslim_women_beef_ia</a> Date Accessed: 28/7/2016</p>	<p>बजरंग दल</p>	<p>26/7/2016 मंदसौर , मध्यप्रदेश</p>
<p><b>गुजरात के आणंद में सांप्रदायिक दंगा</b></p> <p>गुजरात के आणंद जिले के खंबाट कस्बे में सांप्रदायिक दंगे में चार लोग घायल हो गए। एक पुराने विवाद को लेकर चुनारा और मुस्लिम समुदाय के लोगों में सांप्रदायिक झड़प हुई। हिंसा के दौरान लोगों ने पथराव किया और धारदार हथियारों से हमला किया। इस विवाद में पुलिस ने 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/4-hurt-in-communal-clash-at-Khambhat/articleshow/53389901.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/4-hurt-in-communal-clash-at-Khambhat/articleshow/53389901.cms</a> Date Accessed: 26/7/2016</p>	<p>चुनारा ,मुस्लिम</p>	<p>आणंद ,गुजरात 24/7/2016</p>
<p><b>राजस्थान में लड़की गायब होने से तनाव</b></p> <p>राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक लड़की के अगवा किए जाने के आरोपों के बाद तनाव हुआ। फतेहपुर गांव से गायब हुई लड़की के परिवार वालों ने मुस्लिम युवकों पर अगवा करने का आरोप लगाया था। इस घटना को लेकर विहिप द्वारा आयोजित प्रदर्शन में नारेबाजी हुई।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Tension-prevails-in-Hanumangarh/articleshow/53276754.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/Tension-prevails-in-Hanumangarh/articleshow/53276754.cms</a> Date Accessed: 19/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय, विहिप</p>	<p>18/7/2016 हनुमानगढ़ , राजस्थान</p>
<p><b>कर्नाटक के कलबुर्गी में विवाद</b></p> <p>कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद में फेसबुक पोस्ट को लेकर सांप्रदायिक विवाद हुआ। मुस्लिम समुदाय की ओर से नाराजगी जताने के बाद पुलिस ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्तारी के विरोध में दूसरे समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों की रिहाई की मांग करने लगे। इसी दौरान दोनों समूहों में हिंसक झड़प हुई।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/todays-paper/tension-in-aland-as-groups-clash-over-facebook-post/article8813643.ece">http://www.thehindu.com/todays-paper/tension-in-aland-as-groups-clash-over-facebook-post/article8813643.ece</a> Date Accessed: 6/7/2016</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>4/7/2016 आलंद ,कलबुर्गी , कर्नाटक</p>

## सांप्रदायिक रणनीतियां

## सांप्रदायिक संगठन

रणनीतियां	सम्मिलित संगठन
<p><b>पश्चिम बंगाल में वनवासी कल्याण केन्द्र का प्रसार</b></p> <p>पश्चिम बंगाल में हिंदुत्ववादी संगठन लगातार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में वनवासी कल्याण केन्द्र और एकल विद्यालय के स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। आरएसएस से जुड़े यह संगठन अपने स्कूलों में आरएसएस के अजेंडा को बढ़ावा देते हैं। इस तरह के स्कूल आमतौर पर सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी बहुल इलाकों में खोले जाते हैं।</p> <p><a href="http://www.thequint.com/blogs//02/07/2016saffronisation-creeping-in-bengal-through-vanvasi-kalyan-kendra-bjp-mamata-banerjee-hrd-ministry">http://www.thequint.com/blogs//02/07/2016saffronisation-creeping-in-bengal-through-vanvasi-kalyan-kendra-bjp-mamata-banerjee-hrd-ministry</a> Date Accessed: 2/7/2016</p>	वनवासी कल्याण केन्द्र
<p><b>भुवनेश्वर में विहिप का बंद आयोजित</b></p> <p>विहिप ने भुवनेश्वर में भगवान जगन्नाथ की बहुदा यात्रा में रूकावट को मुद्दा बनाकर बंद का आयोजन किया। राउरकेला में सोशल पोस्ट से भड़के तनाव के कारण भगवान जगन्नाथ की यात्रा बाधित हुई थी। विहिप के 12 घंटे के इस बंद के दौरान शैक्षणिक संस्थान, सरकारी दफ्तर और व्यापारिक स्थल पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान किसी तरह की हिंसा की खबर नहीं है।</p> <p><a href="http://www.thehindu.com/news/national/other-states/bandh-called-by-bajrang-dal-vhp-passes-off-peacefully/article.8860981ece">http://www.thehindu.com/news/national/other-states/bandh-called-by-bajrang-dal-vhp-passes-off-peacefully/article.8860981ece</a> Date Accessed: 17/7/2016</p>	विहिप
<p><b>कर्नाटक में दलित परिवार पर हमला</b></p> <p>कर्नाटक के चिकमगलूर में बजरंग दल के 7 कार्यकर्ताओं ने पशु चुराने और गौ हत्या का आरोप लगाकर एक दलित परिवार पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर दलित परिवार और बजरंग दल के लोगों पर भी एफआईआर दर्ज किया है। इस घटना के विरोध में दलित संगठनों ने भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध में प्रदर्शन किया।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/cow-vigilantes-in-chikmagalur-seven-from-bajrang-dal-booked-for-attacking-dalits-/2932283">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/cow-vigilantes-in-chikmagalur-seven-from-bajrang-dal-booked-for-attacking-dalits-/2932283</a> <a href="http://www.business-standard.com/article/news-ani/dalits-stage-protest-against-sangh-parivar-outfits-in-chikmagalur-116072800433_.html">http://www.business-standard.com/article/news-ani/dalits-stage-protest-against-sangh-parivar-outfits-in-chikmagalur-116072800433_.html</a> Date Accessed: 28/7/2016</p>	बजरंग दल
<p><b>गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई</b></p> <p>गुजरात के ऊना में 11 जुलाई को गौहत्या का आरोप लगाकर चमड़ा व्यापार में लगे 7 दलित युवकों को गोरक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से पीटा गया। सीआईडी ने इस मामले में 30 से अधिक गिरफ्तारियां कीं। गुजरात में इसी तरह की घटनाओं के दूसरे वीडियो भी सामने आए हैं। इस घटना के विरोध में दलितों ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है और मरे हुए जानवरों को उठाने से मना कर दिया है।</p> <p><a href="http://khabar.ndtv.com/video/show/news/dalit-youths-beaten-up-for-possessing-beef-in-gujarat-423776">http://khabar.ndtv.com/video/show/news/dalit-youths-beaten-up-for-possessing-beef-in-gujarat-423776</a></p>	गोरक्षक संगठन

<p><a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/dalits-protest-una-thrashing-in-modi-s-hometown-blame-bjp-and-hindutva/story-PcDEifwFGIHn20fLwuvTOJ.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/dalits-protest-una-thrashing-in-modi-s-hometown-blame-bjp-and-hindutva/story-PcDEifwFGIHn20fLwuvTOJ.html</a>  <a href="http://khabar.ndtv.com/video/show/news/new-video-of-dalit-atrocities-emerges-in-gujarat-424474">http://khabar.ndtv.com/video/show/news/new-video-of-dalit-atrocities-emerges-in-gujarat-424474</a>                  Date Accessed: 23/7/2016</p>	
<p><b>धर्मांतरण के आरोप में पादरी की पिटाई</b></p> <p>उत्तरप्रदेश के रीवा में 21 जुलाई को बजरंग दल के 25 कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर एक पादरी और उनके सहायक की पिटाई की। बजरंग दल का आरोप था कि पादरी रामलाल कोरी और नंदलाल कोरी रीवा के शाहपुर इलाके में धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं।</p> <p><a href="http://www.catchnews.com/national-news/uttar-pradesh-pastor-allegedly-stripped-and-beaten-over-forced-religious-conversions-1469358119.html">http://www.catchnews.com/national-news/uttar-pradesh-pastor-allegedly-stripped-and-beaten-over-forced-religious-conversions-1469358119.html</a>                  Date Accessed: 24/7/2016</p>	<p>बजरंग दल</p>
<p><b>हैदराबाद विश्वविद्यालय को लेकर विहिप का चलो हैदराबाद</b></p> <p>विहिप हैदराबाद विश्वविद्यालय में लगातार नए विवाद की कोशिश कर रही है। 28 जुलाई को प्रस्तावित 'चलो हैदराबाद' कार्यक्रम के जरिए हैदराबाद यूनीवर्सिटी से कुछ फैकल्टी सदस्यों को राष्ट्र विरोधी कहकर निलंबन की मांग कर रही है।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/india-news/vhp-demands-suspension-of-anti-national-faculty-from-hyderabad-university/story-SHyFpGHfbs7LOQBjNrUSZL.html">http://www.hindustantimes.com/india-news/vhp-demands-suspension-of-anti-national-faculty-from-hyderabad-university/story-SHyFpGHfbs7LOQBjNrUSZL.html</a>                  Date Accessed: 24/7/2016</p>	<p>विहिप</p>
<p><b>हिंदू सोसायटी में घर खरीदने पर विहिप का प्रदर्शन</b></p> <p>गुजरात में 1991 के डिस्टर्ब एरिया एक्ट को आधार बनाकर सांप्रदायिक तनाव की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद में हिंदुओं की सोसाइटी में घर खरीदने वाले दलित मनु धाबी का विरोध किया जा रहा है। सोसायटी के लोगों का आरोप है कि मनु के जरिए शरीफ खान पठान मकान ले रहा है। इसके विरोध में विहिप के लोग भी शामिल हैं।</p> <p><a href="http://www.jansatta.com/rajya/ahmedabad/minister-sees-kairana-man-says-society-wants-him-out-for-being-dalit/120925/">http://www.jansatta.com/rajya/ahmedabad/minister-sees-kairana-man-says-society-wants-him-out-for-being-dalit/120925/</a>                  Date Accessed: 17/7/2016</p>	<p>हिंदू सोसाइटी, विहिप</p>
<p><b>मध्यप्रदेश में दक्षिणपंथी संगठन ने लड़कियों के साथ अभद्रता की</b></p> <p>मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ में दक्षिणपंथी संगठनों ने एक लड़की को स्कार्फ हटाने के लिए कहा। पीड़िता ने कहा कि वे कह रहे थे कि यह पश्चिमी सभ्यता है। कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दुर्गावाहिनी से जुड़े हैं। आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने कालेज परिसर में जाकर खुद लड़कियों के स्कार्फ जबरन खोले। हाल ही में भोपाल में कश्मीरी छात्रों पर हमला भी हुआ है।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/bhopal/bhopal-saffron-group-forces-college-students-to-remove-scarves/story-1JsWCEmsoggGzKzbv78qPI.html">http://www.hindustantimes.com/bhopal/bhopal-saffron-group-forces-college-students-to-remove-scarves/story-1JsWCEmsoggGzKzbv78qPI.html</a>  <a href="http://www.telegraphindia.com/1160722/jsp/nation/story_98091.jsp#.V5zDp0t97IU">http://www.telegraphindia.com/1160722/jsp/nation/story_98091.jsp#.V5zDp0t97IU</a>                  Date Accessed: 22/7/2016</p>	<p>अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और दुर्गावाहिनी</p>
<p><b>आरएसएस के संगठन पर आदिवासी लड़कियों की तस्करी का आरोप</b></p> <p>आरएसएस के सहयोगी संगठन ने असम की 31 आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर गुजरात और पंजाब में रखा है। 20 लड़कियों को गुजरात में हलवाद के सरस्वती शिशु मंदिर में रखा गया है। पंजाब में पटियाला के</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े संगठन</p>

<p>माता गुजरी कन्या छात्रावास में 11 लड़कियां रखी गयी हैं। इनको संघ शासित स्कूलों में शिक्षा देने के बहाने हिंदू धर्म की दीक्षा दी जा रही है।</p> <p><a href="http://www.outlookindia.com/magazine/story/intro-the-sanghs-stolen-child-crusade/297609">http://www.outlookindia.com/magazine/story/intro-the-sanghs-stolen-child-crusade/297609</a> Date Accessed: 31/7/2016</p>	
<p><b>कथित पलायन को लेकर विहिप का सर्वे</b></p> <p>पटना में विहिप की केन्द्रीय समिति में एक प्रस्ताव के तहत हिंदू पलायन के मुद्दे को नया स्वरूप दे रहा है। विहिप ने इस अभियान को पलायन नहीं पराक्रम नाम दिया है। विहिप ने हिंदुओं के कथित पलायन के लिए राष्ट्रीय सर्वे करने की बात कही है। विहिप ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर ,केरल ,गुजरात और बंगाल में हिंदुओं ने पलायन किया है।</p> <p><a href="http://timesofindia.indiatimes.com/india/VHP-vows-to-stop-Hindu-migration/articleshow/52999472.cms">http://timesofindia.indiatimes.com/india/VHP-vows-to-stop-Hindu-migration/articleshow/52999472.cms</a> <a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/vhps-countrywide-survey-on-forced-migration-of-hindus-to-start-from-next-week-/2890813">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/vhps-countrywide-survey-on-forced-migration-of-hindus-to-start-from-next-week-/2890813</a> Date Accessed: 3/7/2016</p>	<p>विहिप</p>
<p><b>हिंदुत्वादी संगठनों का न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन</b></p> <p>हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुंबई में हिंदुत्वादी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ,सनातन संस्था पर प्रतिबंध लगाने की मांग का विरोध करने के प्रदर्शन किया। हिंदू राष्ट्र सेना ,हिंदू महासभा ,हिंदू गोवंश रक्षा समिति ,श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान ,हिंदू राष्ट्र जनजागरण समिति ,महाराणा प्रताप बटालियन ,भारतीय युवा शक्ति ,हिंदू विधिद्वय परिषद और अन्य संगठनों ने आरोप लगाया है कि धनंजय देसाई ,प्रजा सिंह ठाकुर ,आसाराम और सनातन संस्था पर लगाए गए आरोप झूठे हैं।</p> <p><a href="http://www.financialexpress.com/india-news/hindu-outfits-to-protest-against-jailing-of-saffron-leaders/329717/">http://www.financialexpress.com/india-news/hindu-outfits-to-protest-against-jailing-of-saffron-leaders/329717/</a> Date Accessed: 26/7/2016</p>	<p>हिंदू राष्ट्र सेना ,हिंदू महासभा ,हिंदू गोवंश रक्षा समिति ,श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान ,हिंदू राष्ट्र जनजागरण समिति ,महाराणा प्रताप बटालियन , भारतीय युवा शक्ति ,हिंदू विधिद्वय परिषद और अन्य संगठन</p>
<p><b>शिक्षा का भगवाकरण</b></p>	
<p><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आरएसएस की दखल</b></p> <p>मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए आरएसएस और उससे जुड़े हुए संगठनों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में आरएसएस ,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ,भारतीय शिक्षण मंडल ,विद्या भारती ,शिक्षा बचाओ आंदोलन ,संस्कृति भारती और इतिहास संकलन योजना के पदाधिकारी शामिल हुए।</p> <p><a href="http://thewire.in//54663hrd-minister-meets-rss-for-suggestions-on-draft-national-education-policy/">http://thewire.in//54663hrd-minister-meets-rss-for-suggestions-on-draft-national-education-policy/</a> Date Accessed: 28/7/2016</p>	<p>आरएसएस ,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ,राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ , भारतीय शिक्षण मंडल ,विद्या भारती , शिक्षा बचाओ आंदोलन ,संस्कृति भारती और इतिहास संकलन योजना</p>
<p><b>हिंदू जनजागृति समिति का शिवाजी का चित्र को आपत्तिजनक बताया</b></p> <p>महाराष्ट्र में हिंदू जनजागृति समिति ने कक्षा 4-की किताब बाल भारती में छत्रपति शिवाजी के चित्र पर आपत्ति जतायी है। संगठन का कहना है कि शिवाजी को धर्मनिरपेक्ष की तरह दर्शाया गया है। शिवाजी को आदिल शाही वंश के अफजल खान को गले लगाए दिखाया गया है।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/right-wing-group-warns-stir-over-misleading-shivaji-pic-in-textbook-2937351/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/right-wing-group-warns-stir-over-misleading-shivaji-pic-in-textbook-2937351/</a> Date Accessed: 26/7/2016</p>	<p>हिंदू जनजागृति समिति</p>

<p><b>हरियाणा के पब्लिक स्कूल पर पंचायत का फरमान</b></p> <p>हरियाणा के ग्रीन डेल्स पब्लिक स्कूल में ईद के मौके पर कार्यक्रम करने के लिए वहां की एक पंचायत ने विरोध किया। मेवात की पंचायत ने स्कूल पर 5 लाख रूपए का जुर्माना किया और मुस्लिम कर्मचारी और पढ़ने वालों को भी स्कूल से बाहर करने की मांग की। बाद में स्थानीय प्रशासन और लोगों के स्कूल के समर्थन में आने से विवाद सुलझ गया।</p> <p><a href="http://www.hindustantimes.com/gurgaon/prayer-on-eid-at-mewat-school-given-communal-colours/story-pBD4LHSDp6F4XRU8KXGpBK.html">http://www.hindustantimes.com/gurgaon/prayer-on-eid-at-mewat-school-given-communal-colours/story-pBD4LHSDp6F4XRU8KXGpBK.html</a>  <a href="http://www.hindustantimes.com/delhi/parents-support-mewat-school-targeted-over-eid-event/story-DaBdEYKvPPEeEnSLCrRvxL.html">http://www.hindustantimes.com/delhi/parents-support-mewat-school-targeted-over-eid-event/story-DaBdEYKvPPEeEnSLCrRvxL.html</a>                  Date Accessed: 2/7/2016</p>	<p>हरियाणा की पंचायत (मेवात)</p>
<p><b>स्कूलों में संस्कार सिखाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक</b></p> <p>मध्यप्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में संस्कार सिखाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापकों को रखेगा। इसके लिए राज्य सरकार विद्याभारती के साथ मिलकर काम करेगा। राज्य में विद्या भारती करीब 1000 सरस्वती शिशु मंदिर चला रहा है।</p> <p><a href="http://www.asianage.com/india/madhya-pradesh-schools-set-saffronisation-341">http://www.asianage.com/india/madhya-pradesh-schools-set-saffronisation-341</a>                  Date Accessed: 16/7/2016</p>	<p>मध्यप्रदेश सरकार, विद्या भारती</p>
<p><b>सरस्वती नदी पर सेमिनार</b></p> <p>इंडियन काउंसिल आफ हिस्टॉरिकल रिसर्च ने सरस्वती नदी पर सेमिनार आयोजित करेगा। 'Antiquity, Continuity and Development of Civilisation and Culture in Bharat up to first millennium BC' के जरिए सरस्वती के अस्तित्व और इससे जुड़े नए शोधों पर परिचर्चा करेगा। आरएसएस की रणनीति है कि सरस्वती नदी के जरिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कमतर बताया जाए।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/ichr-to-revive-saraswati-debate-with-seminar-2902414/">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/ichr-to-revive-saraswati-debate-with-seminar-2902414/</a>  <a href="http://www.hindustantimes.com/delhi/parents-support-mewat-school-targeted-over-eid-event/story-DaBdEYKvPPEeEnSLCrRvxL.html">http://www.hindustantimes.com/delhi/parents-support-mewat-school-targeted-over-eid-event/story-DaBdEYKvPPEeEnSLCrRvxL.html</a>                  Date Accessed: 2/8/2016</p>	<p>इंडियन काउंसिल आफ हिस्टॉरिकल रिसर्च</p>
<p><b>अतिवादी कथन</b></p>	
<p><b>सम्राट अशोक को बताया राष्ट्र द्रोही</b></p> <p>राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की पत्रिका बप्पा रावल के मई अंक में अशोक के धर्मांतरण और अहिंसा को बढ़ावा देने के कारण भारत पर ग्रीक जैसे विदेशी आक्रांताओं ने हमला किया। पत्रिका ने बौद्धों को राष्ट्र द्रोही बताते हुए कहा कि वैदिक सभ्यता का पतन बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण हुआ।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-backed-magazine-targets-ashoka-he-was-reason-for-indias-decline-but-worshipped-as-great-/2886753">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-backed-magazine-targets-ashoka-he-was-reason-for-indias-decline-but-worshipped-as-great-/2886753</a>                  Date Accessed: 1/7/2016</p>	<p>बप्पा रावल (राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद)</p>
<p><b>सांप्रदायिक कथन</b></p>	
<p><b>तेलंगाना के भाजपा विधायक ने दलितों की पिटाई का समर्थन किया</b></p> <p>तेलंगाना के गोशामहल सीट से भाजपा विधायक टी.राजा .ने फेसबुक पेज पर एक वीडियो में कहा है कि ऊना में दलितों की पिटाई उचित है। टी.राजा .ने कहा है कि जो भी दलित गोमांस खाते हैं ,गाय को मारते हैं ,उनको</p>	<p>टी.राजा. (भाजपा विधायक)</p>

<p>इसी तरह पीटा जाएगा।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/assault-on-dalits-in-una-by-cow-protectors-was-a-good-thing-bjp-mla-raja-singh-2946432">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/assault-on-dalits-in-una-by-cow-protectors-was-a-good-thing-bjp-mla-raja-singh-2946432</a></p> <p>Date Accessed: 31/7/2016</p>	
<p><b>महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति की इस्लाम पर विवादित टिप्पणी</b></p> <p>आरएसएस के महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति ने रिलीजियस टेररिज्म-अ ग्लोबल थ्रेट में आपत्तिजनक टिप्पणी की। संगठन की आशा शर्मा ने इस्लाम के बारे में टिप्पणी किया कि इस्लाम धर्म नहीं है, बल्कि राजनीतिक आक्रमण है। इस कार्यक्रम में मुस्लिमों की आवादी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गयी।</p> <p><a href="http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-women-wing-muslim-majority-terrorism-mentality-dhaka-attack-2898440">http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/rss-women-wing-muslim-majority-terrorism-mentality-dhaka-attack-2898440</a></p> <p>Date Accessed: 7/7/2016</p>	महिला संगठन राष्ट्र सेविका समिति

### न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया

#### कासरगोड दंगे में केरल हाइकोर्ट का निर्णय

केरल हाइकोर्ट ने 2012 के कासरगोड दंगे में दर्ज सभी आपराधिक मामलों को खारिज कर दिया। यह आदेश 6 आरोपियों की याचिका पर आया। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 19 अप्रैल 2012, की घटना में एक व्यक्ति के घर में आग लगा दिया गया था।

<http://www.thehindu.com/news/cities/Kochi/hc-quashes-communal-violence-cases/article.8889261ece>

Date Accessed: 23/7/2016

#### साबरमती एक्सप्रेस मामले के मुख्य आरोपी से पूछताछ

2002 के साबरमती एक्सप्रेस जलने की घटना के मुख्य आरोपी इमरान अहमद भटुक को पूछताछ के लिए 28 जुलाई तक हिरासत में भेजा गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी को मालेगांव से गिरफ्तार किया था। गवाहों द्वारा नाम लिए जाने के बाद इमरान अहमद भटुक का नाम दूसरी चार्जशीट में शामिल किया गया था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/vadodara/SIT-gets-custody-of-Imran-Bhatuk-till-July-/28articleshow/.53218875cms>

Date Accessed: 23/7/2016

#### केन्द्र सरकार: असम में प्रतिबंधित टीवी चैनलों का प्रसारण न हो

केन्द्र सरकार ने असम से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि देश में प्रतिबंधित 21 टीवी चैनलों का प्रसारण न किया जाए। इसमें जाकिर नाइक का पीस टीवी भी शामिल है। इन चैनलों को सांप्रदायिक तनाव भड़काने की संभावना के चलते प्रतिबंधित हैं।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/Centre-asks-Assam-govt-to-enforce-ban-on-inciteful-TV-channels/articleshow/53165832.cms>

Date Accessed: 12/7/2016

#### उत्तरी दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव के आरोप में दो गिरफ्तार

उत्तरी दिल्ली के सदर बाजार में दो व्यक्तियों को पुलिस ने सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीन व्यक्तियों ने गायों पर हमला कर घायल कर दिया। आरोप है कि गिरफ्तार हुए लोग अपने ही समुदाय के एक व्यक्ति के बारे में पुरानी रंजिश के चलते अफवाहें फैलाकर फंसाना चाहते थे।

<http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/2-held-for-injuring-cows-to-fan-row-frame-rival-police-2902311/>

Date Accessed: 9/7/2016

### अमरोहा दंगे में 6 लोगों को जमानत

अमरोहा के कलापुर सांप्रदायिक दंगे में ग्राम प्रधान सहित 6 लोगों को जिला अदालत से जमानत मिल गई। 26 जून को धार्मिक स्थल के निर्माण के लेकर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस मामले में 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

<http://www.jagran.com/uttar-pradesh/amroha-city-.14275142html>

Date Accessed: 6/7/2016

### हेट स्पीच मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी को नोटिस

2009 के हेट स्पीच मामले में स्थानीय अदालत ने भाजपा सांसद वरुण गांधी को नोटिस जारी किया। वरुण गांधी इससे पहले अदालत में पेश नहीं हुए थे। मामले से जुड़ी अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

<http://indiatoday.intoday.in/story/bjp-varun-gabdh-hate-speech-pilibhit/.710398/1html>

Date Accessed: 8/7/2016

### वीरमगाम सांप्रदायिक कांड में पांच को उम्र कैद

गुजरात हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2002 के वीरमगाम सांप्रदायिक कांड में पांच और आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस घटना में अल्पसंख्यक समुदाय के तीन लोगों को मार दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों पर केस दर्ज किया था।

<http://www.tribuneindia.com/news/nation/five-get-life-term-in--2002riot-case/.271345html>

Date Accessed: 26/7/2016

### विहिप नेता प्रवीण खांडया पर जांच में नए तथ्य

चिक्कामगलुरु के हिंदुत्ववादी नेता प्रवीण खांडया के बारे में जांच में सामने आया कि उसकी भूमिका सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के अलावा डकैती, जबरन वसूली, अपहरण जैसी वारदात में भी उसकी भूमिका है। प्रवीण खांडया पर 32 मामले दर्ज हैं और वह विहिप का सक्रिय कार्यकर्ता रहा है।

<http://www.newindianexpress.com/states/karnataka/32-cases-are-pending-against-Praveen-Khandya/2016/07/15/article3530005.ece>

Date Accessed: 26/7/2016

### मेहसाणा दंगे में 11 दोषी सिद्ध

गुजरात हाइकोर्ट ने 2002 के दंगों में मेहसाणा जिले में हुए दंगे में 11 लोगों को दोषी बताया है। इस घटना के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति और उनकी बेटी को हिंसक भीड़ द्वारा जिंदा जला दिया गया था। 2005 में निचली अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों के बरी कर 27 दिया था।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/High-Court-convicts-11-for-burning-alive-man-daughter-during-2002-riots/articleshow/53330322.cms>

Date Accessed: 22/7/2016

## किताब

## हाशिमपुरा दंगा: पुलिस और गैरपुलिस अधिकारियों की थी साजिश

1987 के हाशिमपुरा दंगे पर केन्द्रित किताब हाशिमपुरा 22 मई में दावा किया गया है कि यह पुलिस अधिकारियों और गैरपुलिस अधिकारियों की साजिश थी। इस घटना में पीएसी के जवानों की गोलियों से 42 मुस्लिमों की मौत हो गयी थी।

<http://www.hindustantimes.com/india-news/hashmipura-killings-were-planned-by-govt-officials-claims-ex-cop-in-new-book/story-WDsZQEgYvMdUc1LwlFsshO.html>

Date Accessed: 31/7/2016

## सांप्रदायिकता के आंकड़े

## गृहराज्य मंत्री ने दिए संसद में सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़े

गृह राज्यमंत्री किरन रिजिजू ने संसद में दिए बयान में कहा है कि 2015 की तुलना में 2016 के शुरुआती पांच महीनों में सांप्रदायिक हिंसा में हल्की गिरावट हुई है। 2015 में 31 मई तक 287 घटनाएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2016 में यह संख्या 278 रही।

<http://www.livemint.com/Politics/fNyPZkUqCP1x6tr9sKQo1H/Communal-violence-fell-in-first-five-months-of--2016Home-mi.html>

Date Accessed: 19/7/2016

Connect with RGICS at: [info@rgics.org](mailto:info@rgics.org); [www.rgics.org](http://www.rgics.org)



सूचना: यह केवल निजी प्रसार के लिए है। सभी लेख, खबरें मूल लेखों और खबरों का सार-संक्षेप है और इनके शीर्षकों में कहीं-कहीं बदलाव किया गया है। मूल लेखों और खबरों के विस्तार के लिए साथ में लिंक भी दिए गए हैं।